

मुरैना में दूसरी जगह से खरीदते नकली दूध, चिलर सेंटरो को करते थे सप्लाई

Publish Date: | Mon, 11 Jan 2021 06:56 PM (IST)



मुरैना/पोरसा(नईदुनिया प्रतिनिधि)। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सोमवार को पोरसा तहसील के गिंदोली गांव में दो डेयरियों पर छापामार कार्रवाई कर 5500 लीटर मिलावटी व नकली दूध पकड़ा। यह दोनों डेयरी संचालक किसी दूसरी जगहों से नकली व मिलावटी दूध खरीदते थे, जिसे अंबाह व पोरसा में चिलर प्लांटों पर खपाते थे। दरसअल, बीते तीन दिनों से कलेक्टर अ

मुरैना/पोरसा(नईदुनिया प्रतिनिधि)। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सोमवार को पोरसा तहसील के गिंदोली गांव में दो डेयरियों पर छापामार कार्रवाई कर 5500 लीटर मिलावटी व नकली दूध पकड़ा। यह दोनों डेयरी संचालक किसी दूसरी जगहों से नकली व मिलावटी दूध खरीदते थे, जिसे अंबाह व पोरसा में चिलर प्लांटों पर खपाते थे।

दरसअल, बीते तीन दिनों से कलेक्टर अनुराग वर्मा के पास शिकायतें पहुंच रही थीं, कि पोरसा तहसील के गिंदोली गांव में हरेंद्र शर्मा और राजेश शर्मा की डेयरी पर नकली दूध का कारोबार हो रहा है। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने फूड सेफ्टी आफिसर अवनीश गुप्ता, अनिल प्रताप सिंह परिहार, रेखा सोनी के अलावा हल्का पटवारी राजेश करोरिया और पोरसा पुलिस टीम को सोमवार की दोपहर कार्रवाई के लिए भेजा। औचक छापामार कार्रवाई में हरेंद्र शर्मा की डेयरी पर दो लोडिंग वाहन एमपी 06 जीए 0725 और एमपी 06 जीए 1742 पर 1500 लीटर दूध पाया गया। दोनों दूध के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद राजेश शर्मा की सिद्धबाबा दूध डेयरी एमपी 06 जीए 2617 और एमपी 07 जीए 8043 एवं टैंकर क्रमांक एमपी06 जीए 2317 में लगभग 4000 लीटर दूध भरा हुआ मिला है। इन तीनों वाहनों में भरे दूध के भी सैंपल लिए गए हैं।

नकली दूध सस्ते में खरीदकर महंगा बेचते थे

फूड सेफ्टी विभाग की टीम में सामने आया कि हरेंद्र शर्मा और राजेश शर्मा अपनी डेयरी पर खुद नकली या मिलावटी दूध नहीं बनाते थे। बल्कि दूसरी जगह वह कैमिकल व अन्य सामग्री से नकली दूध बनाते थे। जिसे सस्ते दामों खरीदकर महंगे दामों में अंबाह व पोरसा के चिलर प्लांटों को सप्लाई करते थे। फूड सेफ्टी विभाग उन चिलर प्लांटों से भी जानकारी मांगी है जहां इन दोनों डेयरी का दूध बिकता था।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/morena-morena-news-6650558>